



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 22 नवम्बर, 2025

जारी करने का समय: 1330 घंटे

विषय: (i) 22 नवंबर को मलक्का जलडमरूमध्य और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। 24 नवंबर 2025 के आसपास इसके दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव में बदलने की संभावना है।
(ii) 22 से 27 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा और 24 और 25 नवंबर को बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 22 से 25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में, 22 से 26 नवंबर के दौरान केरल और माहे में, 22 और 23 नवंबर को लक्षद्वीप में और 22 नवंबर को रायलसीमा में भारी वर्षा होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों की वास्तविक मौसम स्थिति (आज 22 नवम्बर, 2025 को सुबह 0830 बजे IST तक):

- ❖ तमिलनाडु, केरल और माहे, रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुलग्नक II और III देखें):

- ❖ मलक्का जलडमरूमध्य के मध्य भागों पर कल के ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से, आज 22 नवंबर 2025 को 0830 बजे IST पर मलक्का जलडमरूमध्य और आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना। इसके पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और 24 नवंबर 2025 के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में तीव्र होने की बहुत संभावना है। पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ते हुए, अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में इसके और तीव्र होने की बहुत संभावना है।
- ❖ निचले क्षोभमंडल स्तर पर पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
- ❖ दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो निचले क्षोभमंडल स्तर तक फैला हुआ है।
- ❖ एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण कोमिन क्षेत्र और समीपवर्ती भारतीय भूमध्यरेखीय महासागर पर स्थित है तथा निचले क्षोभमंडल स्तर तक फैला हुआ है।

इन प्रणालियों के प्रभाव में, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

- ❖ 22 से 27 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा और 24 और 25 नवंबर को बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 22 से 25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में, 22 से 26 नवंबर के दौरान केरल और माहे में, 22 और 23 नवंबर को लक्षद्वीप में और 22 नवंबर को रायलसीमा में भारी वर्षा होने की संभावना है।
- ❖ 22 से 24 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में, 22 से 26 नवंबर के दौरान केरल और माहे और लक्षद्वीप में; 22 नवंबर को तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सप्ताह के दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों के दौरान आज 0830 बजे तक तापमान की स्थिति:

- ❖ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 6°C से कम; हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर; उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर; पंजाब में कई स्थानों पर 7-10°C के बीच; मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर; हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 6°C से कम दर्ज किया गया। भारत के मैदानी इलाकों में राजगढ़ (पश्चिम मध्य प्रदेश) में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2°C दर्ज किया गया।
- ❖ पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर; ओडिशा, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे (-1.6°C से -3.0°C) रहा। (परिशिष्ट IV देखें)

तापमान और शीत लहर का पूर्वानुमान और ठंडे दिन की चेतावनी:

- ❖ अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
- ❖ अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2-30 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
- ❖ अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में 2-30 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
- ❖ देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।
- ❖ अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा।

मछुआरों के लिए चेतावनी:

मछुआरों को 22 नवंबर से 27 नवंबर के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी जाती है:

- ❖ अरब सागर:
22 से 25 नवंबर के दौरान केरल तट के साथ-साथ, लक्षद्वीप, कोमोरिन क्षेत्रों में।
- ❖ बंगाल की खाड़ी:
22 से 27 नवंबर के दौरान अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर; 22 नवंबर को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में, 23 और 24 नवंबर को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में, 25 नवंबर को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में और 26 नवंबर को पूरे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में; 25 और 26 नवंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में; 22 से 27 नवंबर के दौरान मन्नार की खाड़ी के ऊपर।

ii) दिल्ली/एनसीआर में 21 से 24 नवंबर 2025 तक मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (परिशिष्ट III)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>

महत्वपूर्ण दर्ज वर्षा (सेमी में) (कल 0830 घंटे IST से आज 0830 घंटे IST तक):




तमिलनाडु और कराईकल: तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल: ओथु (जिला तिरुनेलवेली) 12, नालुमुक्कु (जिला तिरुनेलवेली) 11, कक्काची (जिला तिरुनेलवेली), मंजोलाई (जिला तिरुनेलवेली) 9 प्रत्येक, मायलाउडी (जिला कन्याकुमारी) 7;





केरल: नेय्याट्टिनकारा (त्रिवेंद्रम जिला) 8;

रायलसीमा: कोदुर (जिला वार्डएसआर जिला) 9, पेनागलुरु (जिला अन्नमय्या जिला) 9

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	22- Nov	23- Nov	24- Nov	25- Nov	26- Nov	27- Nov	28- Nov
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
2	ARUNACHAL PRADESH	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
3	ASSAM & MEHGHALAYA	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY
6	GANGETIC WEST BENGAL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
7	ODISHA	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
8	JHARKHAND	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
9	BIHAR	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
10	EAST UTTAR PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
11	WEST UTTAR PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
12	UTTARAKHAND	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
14	PUNJAB	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
15	HIMACHAL PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
17	WEST RAJASTHAN	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
18	EAST RAJASTHAN	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
19	WEST MADHYA PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
20	EAST MADHYA PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
21	GUJRAT REGION	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
22	SAURASHTRA & KUTCH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
23	KONKAN & GOA	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY
24	MADHYA MAHARASHTRA	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY
25	MARATHWADA	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
26	VIDARBHA	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
27	CHHATTISGARH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
29	TELANGANA	DRY	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY
30	RAYALASEEMA	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY
35	KERALA AND MAHE	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
36	LAKSHADWEEP	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

दिल्ली/एनसीआर पर 21 से 24 नवंबर 2025 तक का मौसम पूर्वानुमान**पिछला मौसम:**

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस) के करीब हैं। सफदरजंग हवाई अड्डे ने 21 नवंबर 2025 को 0800 बजे IST से 0830 बजे IST तक 700 मीटर की सबसे कम दृश्यता दर्ज की, जो बाद में 0900 बजे IST पर 800 मीटर हो गई। पालम हवाई अड्डे ने 21 नवंबर 2025 को 0730 बजे IST से 0830 बजे IST तक 700 मीटर की सबसे कम दृश्यता दर्ज की, जो बाद में 0900 बजे IST पर 800 मीटर हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम दिशा से 08 किमी प्रति घंटे की गति वाली हवा के साथ मुख्य रूप से साफ आसमान की स्थिति रही। सुबह के समय क्षेत्र में आसमान साफ रहा तथा हवाएं शांत रहीं, तथा आज दोपहर में दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर 8 किमी प्रति घंटे से भी कम हो गई।



मौसम पूर्वानुमान:

22.11.2025: आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। रात में धुंध/धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। दोपहर के समय हवा की गति 10 किमी प्रति घंटे तक बढ़ने के साथ प्रमुख सतही हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से आने की संभावना है। शाम और रात के दौरान उत्तर दिशा से हवा की गति बढ़कर 05 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी।

23.11.2025: आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। सुबह के समय हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर 5 किमी प्रति घंटे से कम हो जाने के कारण प्रमुख सतही हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से आने की संभावना है। दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति बढ़कर 10 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी। शाम और रात के दौरान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति घटकर 5 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी।

24.11.2025: आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकांश स्थानों पर हल्का कोहरा और सुबह के समय अलग-अलग स्थानों पर मध्यम कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 से 27°C और 09 से 11°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-0.3 से -2.3°C) रहेगा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। प्रमुख सतही हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से आने की संभावना है, सुबह के समय हवा शांत रहेगी क्योंकि सुबह के समय हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर 5 किमी प्रति घंटे से कम हो गई। दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति बढ़कर 08 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी। शाम और रात के दौरान उत्तर-पूर्व दिशा से हवा की गति घटकर 05 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी।

25.11.2025: आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकांश स्थानों पर हल्का कोहरा और सुबह के समय अलग-अलग स्थानों पर मध्यम कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और 08 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-0.3 डिग्री सेल्सियस से -2.3 डिग्री सेल्सियस) और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से कम (0.7 डिग्री सेल्सियस से 2.7 डिग्री सेल्सियस) रहेगा। सुबह के समय प्रमुख सतही हवा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से आने की संभावना है, जबकि हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर 5 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी। दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति बढ़कर 15 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी।



प्रभाव एवं सुझाई गई कार्रवाई

- ❖ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा 24 और 25 नवंबर को संभावना है।

संभावित प्रभाव

- ❖ उपरोक्त क्षेत्रों के शहरी इलाकों में मुख्यतः सड़कों पर स्थानीय बाढ़, निचले इलाकों में जल-जमाव और अंडरपास बंद होना।
- ❖ भारी वर्षा के कारण दृश्यता में कभी-कभी कमी।
- ❖ सड़कों पर जल-जमाव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित, यात्रा समय में वृद्धि।
- ❖ कच्ची सड़कों को मामूली क्षति।
- ❖ कमजोर संरचनाओं को क्षति की संभावना।
- ❖ स्थानीय भूस्खलन/कीचड़ खिसकना/भू-धंसाव।
- ❖ जल-जमाव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को क्षति।
- ❖ कुछ नदी घाटियों में नदी किनारे बाढ़ हो सकती है (नदी बाढ़ के लिए CWC की वेबसाइट देखें)।
- ❖ सुझाई गई कार्रवाई
- ❖ गंतव्य के लिए निकलने से पहले अपने मार्ग पर यातायात जाम की जाँच करें।
- ❖ इस संबंध में जारी यातायात परामर्श का पालन करें।
- ❖ उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहाँ जल-जमाव की समस्या अक्सर होती है।
- ❖ कमजोर संरचनाओं में रहने से बचें।

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- **तमिलनाडु में**, धान और मूंगफली की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। धान, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का एवं सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले, दालचीनी और काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें।
- **केरल में**, धान एवं सब्जियों के खेतों तथा केले, नारियल, इलायची और काली मिर्च के बागानों में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। भारी वर्षा और तेज़ हवाओं से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उन्हें सहारा प्रदान करें।
- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में**, धान की कटी हुई उपज को नमी से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु अच्छी तरह से ढके हुए ऊँचे स्थानों पर संग्रहित करें। नुकसान से बचाव हेतु पकी हुई सब्जियों की जल्द से जल्द कटाई करें तथा केले, पपीते एवं अन्य ऊँची फसलों के पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें खूंटियों से सहारा दें। भारी वर्षा के दौरान दलहन और तिलहन फसलों की बुवाई न करें। नर्सरी में नए पौध को अस्थायी वर्षा आश्रयों या प्लास्टिक कवर का उपयोग करके सुरक्षित रखें।

पशुपालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार प्रदान करें।
- चारे को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- अतिरिक्त पानी को निकालने हेतु तालाब के चारों ओर उचित जाल का प्रयोग करके एक आउटलेट का निर्माण करें, जिससे अतिप्रवाह की स्थिति में मछलियों को बाहर निकलने से रोका जा सके।

तूफान / तेज़ हवाओं के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- बागवानी फसलों, सब्जियों और फलों के नए पौधों व फल देने वाले पौधों को तेज़ हवाओं के कारण गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें।

शीत लहर / कम तापमान के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- **मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में**, फसलों को कम तापमान के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने हेतु शाम के समय खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करें। सब्जियों की नर्सरी और फलों के पौधों को पुआल / पॉलीथीन शीट से ढक दें तथा मल्टिचिंग का उपयोग करें। कम तापमान से बचाव हेतु केले के गुच्छों को 6% छिद्रित प्लास्टिक बैग से ढक दें।

पशुपालन / मुर्गीपालन

- रात के समय पशुओं को शेड के अंदर रखें और ठंड से बचाने के लिए उन्हें सूखा बिस्तर उपलब्ध कराएं।
- मुर्गी शेड में कृत्रिम प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर चूजों को आवश्यक ऊष्मा प्रदान करें।

किंवदंतियाँ एवं संक्षिप्ताक्षर:


➤ भारी वर्षा: 64.5-115.5 मिमी; बहुत भारी वर्षा: 115.6-204.4 मिमी; अत्यधिक भारी वर्षा: >204.4 मिमी।

मौसम विज्ञान उप-विभागों का क्षेत्रवार वर्गीकरण:

- **उत्तर-पश्चिम भारत:** पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड); पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
- **मध्य भारत:** पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़।
- **पूर्वी भारत:** बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- **पूर्वोत्तर भारत:** अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।
- **पश्चिम भारत:** गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा।
- **दक्षिण भारत:** तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और लक्षद्वीप।

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)